

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 1975/श्रावण 29, 1897

No. 164] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 1975/SRAVANA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

### PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 20th August 1975

**No. DRAWBACK/PN-59/75.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52 F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For sub-serial No. 3906 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3906	Diamond cutting tools but excluding reconditioned diamond tools namely—	
	(1) Drill bits.	20% (Twenty per cent only) of the f.o.b. value.
	(2) Diamond Dressers.	16% (Sixteen per cent only) of the f.o.b. value.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974 and shall remain in force till 31st day of May 1975.

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व और बीमा विभाग)

## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1975

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-59/75.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3906 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

उप क्रम० सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
3906	हीरा काटने के औजार परन्तु जिसमें फिर से दुस्त किए गये हीरों के औजार शामिल नहीं है अर्थात् :—	
(1)	चूड़ीदार वर्मा	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 20 प्रतिशत (केवल बीस प्रतिशत)
(2)	हीरा ड्रेसर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 16 प्रतिशत (केवल सोलह प्रतिशत)।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी और मई 1975 के 31वें दिन तक प्रवृत्त रहेगी।

**NO. DRAWBACK/PN- 60/75.**—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

(1) For sub-serial No. 2510 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub.Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2510	(a) Viscose tyre cord/twine.	Rs. 1.95 (Rupee one and paise ninety five only) per kg.
	(b) Viscose tyre cord/twine.	Rs. 4.45 (Rupees four and paise forty five only) per kg.

*Explanation.*—(1) The rate at (a) above shall also be applicable to export of viscose tyre cord/twine when exported under bond under rule 13 or 14 of Central Excise Rules, 1944.

(2) The rate at (b) above shall apply only if the Central Excise duty on yarn has been paid at the appropriate rate and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(2) In sub-serial No. 2513, under the column description the words in brackets may be substituted as under :—

(excluding parachute cords and viscose tyre/cord/twines).

All the brand rates fixed in respect of viscose tyre cord/twine shall cease to operate on coming into force of this Public Notice.

सं० प्रतिप्रदायगी/सू०-60/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

(1) उपक्रमांक 2510 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उप- क्रमांक	माल का विवरण	प्रति प्रदायगी की दर
2510	(क) विसकोस टायर धागा/बहिलत धागा	1.95 रु० (केवल एक रुपये पंचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ख) विसकोस टायर धागा/बहिलत धागा	4.45 रु० (केवल चार रुपये और पैंतालिस पैसे) प्रति किलोग्राम।

व्याख्या.—(क) उपर्युक्त (क) की दर विसकोस टायर धागे/बहिलत धागे के निर्यात पर भी उस हालत में लागू होगी जब इनका के० उ० शु० नियमावली 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अन्तर्गत बंध-पत्र के अन्तर्गत निर्यात किया गया हो।

(ख) उपर्युक्त (ख) की दर केवल तभी लागू होगी जबकि धागे पर उत्पादन शुल्क उचित दर से प्रदा किया गया हो और के० उ० शु० नियमावली के अन्तर्गत उक्त शुल्क में कोई छूट नहीं ली गयी हो।

(2) उपक्रमांक 2513 में विवरण स्तम्भ के अंतर्गत कोष्ठक में दिये गये शब्दों को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

(पैराग्राफ धागे और विसकोस टायर धागे/बहिलत धागे) विसकोस टायर धागे/बहिलत धागे के संबंध में निर्धारित सभी ग्रांड दरें इस सार्वजनिक सूचना के प्रवृत्त होने पर लागू नहीं होंगी।

**NO. DRAWBACK/PN-61/75.**—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 3902 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3903	Vices, all types.	Rs. 11.00 (Rupees eleven only) per quintal.

2. All the brand rates fixed in respect of the above product shall cease to operate on coming into force this public Notice.

3. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1975.

सं. प्रतिभ्रदायगी/सां. सू० 61/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी/पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3902 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

उप- क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिभ्रदायगी की दर
3903	सभी किस्म के शिकंजे	11.00 रु० (केवल ग्यारह रुपये) प्रति क्विंटल।

2. उपर्युक्त उत्पाद के संबंध में निर्धारित सभी ब्रांड दरें इस सार्वजनिक सूचना के प्रभावी होने के बाद लागू नहीं होंगी।

3. यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1975 से प्रभावी मानो जायगी।

**NO. DRAWBACK/PN-62/75.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971 :—

For-sub-serial No. 5004 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5004	(i) Bicycle complete not otherwise specified, assembled or unassembled.	10% (Ten per cent only) of the f.o.b. value or Rs. 19.50 (Rupees nineteen and paise fifty only) per bicycle whichever is less.
	(ii) Components, spare parts, and accessories of bicycle other than bicycle spokes, nipples, washers, chains, rim liners, saddle covers (made of leather) rubber portion of pedals, tools and tool boxes, cycle pumps and tyres and tubes.	10% (Ten per cent only) of the f.o.b. value.

NOTE.—The above rates are inclusive of drawback on packing materials.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1975 and shall remain in force till 31-12-1975.

सं० प्रतिभ्रदायगी सां०/सू० 62/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70- प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार

सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिभ्रदायगी/पी० एन 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारण में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 5004 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिभ्रदायगी की दर
5004	(i) सम्पूर्ण साईकिल अन्यथा विनिर्दिष्ट संयोजित या असंयोजित	पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत) अथवा 19.50 रु० (केवल उन्नीस रुपये पचास पैसे) प्रति साईकिल, इनमें जो भी कम हो।
	(ii) साईकिल की तीलियां, निप्लों, बाशरों, चैनों, रिम लाइनरो, गद्दी के आवरण (चमड़े से बने), पेंडलों के खड़े के भाग, औजार तथा औजार के बक्से, साईकिल पम्पों, टायर तथा ट्यूबों से भिन्न साईकिल के संस्टक, फालतू पुर्जे तथा उप-साधन।	पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)।

टिप्पणी—उपर्युक्त दरों में पैकिंग सामग्री पर लगने वाली प्रतिभ्रदायगी भी शामिल है।

यह सार्वजनिक सूचना 4 जून, 1975 को लागू होगी और 31-12-1975 तक लागू रहेगी।

**No DRAWBACK/PN-63/75.**—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After sub-serial No. 3828 the following shall be added :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
3829	Aluminium Foil Laminated with paper used as packing material for export of package tea.	Rs. 5.65 (Rupees five and paise sixty five only) per kg.

The above rate is subject to the condition that no rebate is claimed under the Central Excise Rules in respect of the above packing material and the export of the packing material has not been made under Bond.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-63/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 60/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/ पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रमांक 3828 के बाव निम्नलिखित जोड़ा जायगा :—

उप- क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
3829	कागज की परत चढ़ी एल्यूमीनियम की पत्री, जो पैक की गयी चाय के निर्यात के लिये पैकिंग सामग्री के रूप में हस्तेमाल की जाती है।	5.65 रुपये (केवल पांच रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब जब कि उपर्युक्त पैकिंग सामग्री के बारे में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के अधीन छूट का दावा नहीं किया गया हो और पैकिंग सामग्री का निर्यात बन्ध पत्र के अधीन नहीं किया गया हो।

No. **DRAWBACK/PN-64/75**.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. **DRAWBACK/PN-1** dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 2730 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2730	All types of ready made garments made from textile fabrics, but excluding garments made partially or wholly from silk, cotton handloom and powerloom fabrics, hosiery.	
	(i) Where proof of payment of duty on fabrics used in the manufacture of garments is produced.	
	(a) Ready made garments other than trousers.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value plus 107% (One hundred and seven per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabric falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626, as the case may be, on the fabric content of garments

1	2	3
		plus
		107% (One hundred and seven per cent only) of the actual Central Excise duty paid on fabric content of the garments.
(b) Trousers		1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value
		plus
		112% (One hundred and twelve per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626, as the case may be, on the fabric content of the garments
		plus
		112% (One hundred and twelve per cent only) of the actual Central Excise duty paid on fabric content of the garments.
(ii) Where proof of payment on fabric used in manufacture is not produced.		
(a) Ready made garments other than trousers.		3.5% Three point five per cent only) of the f.o.b. value.
		plus
		107% (One hundred and seven per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626, as the case may be, on the fabric content of the garments.
(b) Trousers		3.5% (Three point five per cent only) of the f.o.b. value
		plus
		112% (One hundred and twelve per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2602, 2603, 2606, 2620 and 2626 as the case may be, on the fabric content of the garments

Provided that where the exporter has availed of the procedure under Rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 the above rates of drawback shall not apply.

**Explanation.**—(1) In order to establish payment of Central Excise duty on fabrics cleared under particular Gate Pass (GP) which have been used in the manufacture of garments and correlate the same with the export goods for claiming drawback under (i) above, the exporter/manufacturer shall file statement 'A' and 'B' in the proforma below duly completed and signed by the authorised person and may be submitted at the time of presentation of the Shipping Bill in the Export Department or with the Assistant Collector of Customs (Drawback) after the shipment and thereafter also make necessary arrangements for verification of the statements. Where the exporters are not the manufacturer of the garments, the statements are to be signed jointly by the manufacturer and exporter. Any modification shall be intimated by the manufacturer/exporter to the Assistant Collector of Customs of the port of export.

- (a) In case where the manufactory is located at a place other than the port of shipment one set of similar statement 'A' and 'B' shall also be submitted by the exporter/manufacturer to the Assistant Collector of Customs/ Central Excise having jurisdiction over the manufactory who shall verify the statement and send intimation to the Assistant Collector of Customs concerned of the port of export as to the correctness of the particulars given in the statements.

- (3) In these cases, where the manufacturer/exporters are unable to file statements 'A' and 'B' referred to above, the claim shall be settled at the rates indicated against (ii) above.
- (4) The expression 'fabric content' appearing at (i) and (ii) above refers only to the main/outer fabric contained in the garments and does not include the fabric utilised in interlining, collars, cuffs, pockets etc. and other embellishments.

**STATEMENT 'A'**

**NAME & FULL ADDRESS OF THE  
EXPORTER**

**NAME & FULL ADDRESS OF THE  
MANUFACTURER :**

**STATEMENT OF OUR CLAIM FOR DRAWBACK FOR GARMENTS AT ALL INDUSTRY RATE UNDER SUB-SERIAL NO. 2730 OF DRAWBACK PUBLIC NOTICE NO. DATED**

- A. SHIPPING BILL NO. & DATE : . . . . .
- B. VESSEL'S NAME OR WHETHER BY AIR : . . . . .
- C. DESCRIPTION OF THE GARMENTS EXPORTED & MODEL NUMBER : . . . . .
- D. QUANTITY EXPORTED : . . . . .  
(No. of pieces and weight)
- E. NET F.O.B. VALUE : . . . . .
- F. (i) FULL DESCRIPTION OF BASIC CLOTH USED AND THE FIBRE COMPOSITION ALSO STATE WHETHER A PART IS EMBROIDERED : . . . . .
- (ii) COUNTS/DENIER OF BASIC CLOTH USED : . . . . .
- (iii) GRAMMAGE OF THE BASIC CLOTH PER SQ. METER . . . . .
- G. TOTAL NET SQ. METERS OF BASIC CLOTH UTILISED IN THE EXPORTED GARMENTS : . . . . .
- (i) Un-embroidered Cloth . . . . .
- (ii) Embroidered or Processed Cloth . . . . .
- H. NET QUANTITY OF BASIC CLOTH IN SQ. METERS RETAINED IN THE EXPORTED GARMENTS : . . . . .
- (i) Un-embroidered Cloth . . . . .
- (ii) Embroidered or processed cloth . . . . .
- I. ADD: 7% OR 12% AS THE CASE MAY BE, TO THE BASIC CLOTH RETAINED IN THE TOWARDS WASTAGE EXPORTED GARMENTS : . . . . .
- (i) For un-embroidered cloth . . . . .
- (ii) For embroidered or processed cloth. . . . .
- J. TOTAL QUANTITY OF BASIC CLOTH i.e. NET CONSUMPTION + 7% OR 12% AS THE CASE MAY BE, IN TERMS OF SQ. METERS : . . . . .
- (i) Un-embroidered . . . . sq. mtrs. . . . .
- (ii) Embroidered or Processed . . . . sq. mtrs. . . . .

K. NET WEIGHT OF THE BASIC CLOTH WITH 7% OR 12% AS THE CASE MAY BE, WASTAGE WITHOUT THE WEIGHT OF EMBROIDERY . . . . .

L. AVERAGE CENTRAL EXCISE DUTY INCIDENCE PER SQ. METRE OF BASIC CLOTH (AS PER PURCHASE STATEMENT III ATTACHED). . . . .

- (i) For unembroidered cloth . . . . .
- (ii) For embroidered or processed cloth. . . . .

M. TOTAL AMOUNT OF CENTRAL EXCISE DUTY INVOLVED IN THE BASIC CLOTH i.e. NET FABRICS CONTENT PLUS 7% OR 12% AS THE CASE MAY BE. . . . .

- (i) . . . . .Sq. Mts. (unembroidered @ Rs. . . . .per sq. mtr.) . . . . .
- (ii) . . . . .Sq Mts. (embroidered or processed @ Rs. . . . .per sq. mtr.) . . . . .

**N. TOTAL DRAWBACK CLAIM D**

- (i) @ 1.5% of F.O.B. Value plus . . . . .
- (ii) 7 or 12% (as the case may be) of Basic Cloth as on 'M' above plus . . . . .
- (iii) @ Rs. . . . .per kg. of yarn content as per sub-serial Number  
 2602 OR . . . . .  
 2603 OR . . . . .  
 2606 OR . . . . .  
 2620 OR . . . . .  
 2626 . . . . .
- (iv) @ Rs. . . . .per kg. for Dyed Fabrics (As per Column 'K' above)

TOTAL . . . . .

CERTIFIED THAT WE ARE NOT AVAILING OURSELVES OF CENTRAL EXCISE BENEFIT UNDER RULE 191-A AND 191-B NOR SHALL WE AT ANY TIME AVAIL THESE BENEFITS FROM THE COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE. THE FABRICS USED IS FULLY DUTY PAID.

(Signature of Exporter)

(Signature of Manufacturer)

**STATEMENT 'B'**

**NAME & FULL ADDRESS OF THE EXPORTER** . . . . .

**NAME & FULL ADDRESS OF THE MANUFACTURER** . . . . .

**I. Receipt of Duty paid Fabrics for manufacture of Garments exported as per, Statement 'A'**

Sl. No.	Description of Fabrics mentioned. Sort No.	Name & Address of the Mill supplying the fabrics.	Gate pass No. and date.	Linear Metres.	Width in cms.	Square Metres
1	2	3	4	5	6	7

Net Assessed Value (when duty is <i>ad va- lorem</i> ).	Rate of Excise duty.	Total Amount of duty paid.	Composition of fabrics Warp & Weft and Counts/ Denier Grammage per Sq. Mtr.
8	9	10	11

Avg. duty per Sq. Mtr.

**II. Receipt of Duty paid Fabrics subsequently processed or embrodered out of the above cloth to manufacture Garments exported.**

Description of fabrics men- tioned.	Name of the factory which has done the process, emb. work.	Gate pass No. and date.	Linear Metres	Width in cms.	Square Metres
1	2	3	4	5	6

Net Assessed Value (when duty is <i>ad va- lorem</i> ).	Rate of Cenrtal Excise duty.	Total Excise duty paid for further process- ing or embriod- ery.	Excise duty involved on the basic cloth prior to processing and embriodery.	Overall Central duty on the em- briodered processed cloth i.e. 9+10.	Total Excise or cloth
7	8	9	10	11	

Avg. duty per sq. mtr.

## Common for I and II

Whether fabrics are bleached, dyed or printed.	Description of garments manufactured from the fabric given S.No. of Statement 'A'.	Particulars of export.		
		S.B. No.	Date	Quantity exported.
12	13	14		

This is to certify that the information given above are correct to the best of our knowledge.

(Signature of Exporter)

(Signature of Manufacturer)

सं० प्रति अदायगी/६१० सू०-६४/७५.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, १९७१ (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक २५ अगस्त, १९७१ में प्रकाशित अधिसूचना सं० ५२/फा० सं० ६०२/२/७०-प्र० अ०) के नियम ४ के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० १, दिनांक १५ अक्टूबर, १९७१ में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक २७३० तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3

२७३० टैक्सटाइल वस्त्रों से बनी सभी किस्म की तैयार पोशाकें परन्तु जिनमें अंशतः अथवा पूर्णतया रेसम, सूती हथकरघा तथा विद्युत् करघा वस्त्र और होजियरी से बनी पोशाकें शामिल नहीं हैं—

(i) जिन मामलों में पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त वस्त्रों पर शुल्क की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता हो ।

(क) बाजारों से भिन्न सिली-सिलाई पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य पोशाकें ।  
का १.५ प्रतिशत (केवल एक दशमलव पाँच प्रतिशत)

1

2

3

तथा

उपक्रम सं० 2602, 2603, 2606, 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के सम्बन्ध में, पोशाकों की वस्त्र, अन्तर्वस्त्र पर यथास्थिति, निर्धारित की गई प्रति अदायगी की दरों का 107 प्रतिशत (केवल एक सौ सात प्रतिशत)

तथा

पोशाकों की वस्त्र, अन्तर्वस्त्र पर वस्तुतः अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क का 107 प्रतिशत (केवल एक सौ सात प्रतिशत) ।

(ii) पाजामे . . . . . पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)

तथा

उपक्रम सं० 2602, 2603, 2606, 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के सम्बन्ध में, पोशाकों की वस्त्र, अन्तर्वस्त्र पर, यथास्थिति, निर्धारित की गई प्रति-अदायगी की दरों का 112 प्रतिशत (केवल एक सौ बारह प्रतिशत)

तथा

पोशाकों के वस्त्र, अन्तर्वस्त्र पर वस्तुतः अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का 112 प्रतिशत (केवल एक सौ बारह प्रतिशत) ।

(iii) जिन मामलों में पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त वस्त्रों पर शुल्क की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता हो

1

2

3

- (क) पाजामों से भिन्न सिली-सिलायी पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत)

तथा

उपक्रमांक 2602, 2603, 2606, 2620 और 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के सम्बन्ध में पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर यथास्थिति निर्धारित की गयी प्रति-अदायगी की दर का 107 प्रतिशत (केवल एक सौ सात प्रतिशत)।

- (ख) पाजामें . . . . . पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत) तथा उपक्रमांक 2602, 2603, 2606, 2620 और 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के सम्बन्ध में पोशाकों की अन्तर्वस्तु पर यथास्थिति निर्धारित की गयी दर का 112 प्रतिशत (केवल एक सौ बारह प्रतिशत)।

परन्तु शर्त यह है कि जिन मामलों में निर्यातकर्त्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत दी गयी कार्यावधि का लाभ उठाया हो, उनमें प्रतिअदायगी के उपर्युक्त दरें लागू नहीं होंगी।

**व्याख्या.—**(1) पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त ऐसे वस्त्रों पर, जिनकी निकासी किसी गेट-पास विशेष के अन्तर्गत की गई हो, उत्पादनशुल्क की अदायगी को प्रभावित करने और उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत प्रतिअदायगी का दावा पेश करने के लिए उन्हें निर्यात किये जाने वाले माल से सह-सम्बन्धित करने की दृष्टि से, निर्यातकर्त्ता/निर्माता निर्यात के पत्तन के सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क को नीचे दिये गये द्राक.मों में विवरण पत्र I और II पेश करेंगे, जो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत् पूरे किये गये हो तथा हस्ताक्षरित हों। इन विवरण-पत्रों को शिपिंग बिल को प्रस्तुत करते समय निर्यात विभाग में जमा किया जा सकता है अथवा पोतलदान के बाद सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क (प्रतिअदायगी) के पास जमा किया जा सकता है और उसके पश्चात् विवरण-पत्रों के सत्यापन के लिये आवश्यक व्यवस्था भी करेगा। जिन मामलों में निर्यातकर्त्ता पोशाकों के निर्माता नहीं होते उनमें ये विवरण-पत्र, निर्माता तथा निर्यातकर्त्ता द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किये

जाने होते हैं। उक्त विवरण-पत्रों में किसी प्रकार के फेरबदल की सूचना निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा निर्यात के पत्तन के सहायक समाहर्ता को भेजी जायगी।

- (2) उन मामलों में जहाँ कारखाना पोतलवान के स्थान से भिन्न स्थान पर स्थित हों वहाँ निर्यातकर्त्ता/निर्माता द्वारा उसी प्रकार के विवरण-पत्रों I और II की उस सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को भी प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसके अधिकांश क्षेत्र में कारखाना हो जो उन विवरण-पत्रों की जांच करेगा और निर्यात के पत्तन पर सीमाशुल्क के सम्बन्धित सहायक समाहर्ता को विवरण-पत्रों में दिए गए व्यौरों की सत्यता के बारे में सूचित करेगा।
- (3) जिन मामलों में निर्माता/निर्यातकर्त्ता उपर्युक्त विवरण-पत्र I और II पेश नहीं कर सकते उन मामलों में दावों का निपटान उपर्युक्त (ii) के सामने विनिर्दिष्ट ढरों पर किया जायगा।
- (4) ऊपर (I) और (II) में उल्लिखित वस्त्र अन्तर्बस्तु का संकेत पोशाकों में प्रयुक्त मुख्य/बाह्य वस्त्र मात्र से है और इसमें अस्तर, कालर, कफ, जेब भाँवि तथा अन्य सजावटों के लिए प्रयुक्त वस्त्र शामिल नहीं हैं।

#### विवरण-पत्र 'क'

निर्यातकर्त्ता का नाम और पूरा पता

निर्माता का नाम और पूरा पता

प्रतिप्रवायगी सार्वजनिक सूचना सं०.....दिनांक.....के उपक्रमांक  
2730 के अन्तर्गत सर्व-उद्योग ढरों पर पोशाकों के लिये प्रतिप्रवायगी के  
निमित्त हमारे दावे का विवरण-पत्र

- (क) शिपिंग बिल सं० तथा तारीख :
- (ख) जलयान का नाम अथवा क्या हवाई जहाज द्वारा भेजा गया :
- (ग) निर्यात की गयी पोशाकों का विवरण अथवा माडल संख्या :
- (घ) निर्यात की गयी मात्रा :—  
(नगों की संख्या और वजन)
- (ङ) पोत पर्यंत निःशुल्क शुद्ध मूल्य :
- (च) (i) इस्तेमाल किये गये मूल कपड़े का पूरा विवरण और तंतु संरचना तथा यह भी बतायें कि कपड़े के एक भाग पर कशीदाकारी की गयी है या नहीं :  
(ii) इस्तेमाल किये गये मूल कपड़े के काउंट/डेनिअर

- (iii) मूल कपड़े का प्रति वर्ग मीटर ग्रामों में वजन
- (छ) निर्यात की गयी पोशाकों में हस्तेमाल किये गये मूल कपड़े के कुल शुद्ध वर्ग मीटर:—
- (i) बिना कशीदाकारी का कपड़ा
  - (ii) कशीदाकारी युक्त अथवा प्रक्रियागत कपड़ा
- (ज) निर्यात की गई पोशाकों में रखी गई मूल कपड़े की शुद्ध मात्रा, वर्ग मीटर में—
- (i) बिना कशीदाकारी का कपड़ा
  - (ii) कशीदाकारी युक्त अथवा प्रक्रियागत कपड़ा
- (झ) जोड़िये, . . . . . में रखे गये मूल कपड़े का 7 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो, छीजन . . . . . निर्यात की गई पोशाकों:—
- (i) बिना कशीदाकारी के कपड़े के लिए
  - (ii) कशीदाकारी युक्त अथवा प्रक्रियागत कपड़े के लिये
- (ञ) मूल कपड़े की कुल मात्रा अर्थात् शुद्ध खपत + 7 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत जैसा भी मामला हो, वर्ग मीटरों में:—
- (i) बिना कशीदाकारी का . . . . . वर्ग मीटर
  - (ii) कशीदाकारी युक्त अथवा प्रक्रियागत . . . . . वर्ग मीटर
- (ट) 7 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत के साथ, मूल कपड़े का शुद्ध वजन जैसा भी मामला हो, कशीदाकारी के वजन के बिना छीजन
- (ठ) मूल कपड़े के प्रति वर्ग मीटर पर औसत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का भार (संलग्न खरीद-विवरण पत्र III के अनुसार):—
- (i) बिना कशीदाकारी के कपड़े के लिए

- (ii) कशीदाकारी युक्त अथवा  
प्रक्रियागत कपड़े के लिये :
- (इ) मूल कपड़े में अन्तर्ग्रस्त केन्द्रीय उत्पादन-  
शुल्क की कुल रकम अर्थात् शुद्ध कपड़ा  
अन्तर्ग्रस्त तथा 7 प्रतिशत अथवा 12  
प्रतिशत जैसा भी मामल हो :—
- (i) ..... वर्ग मीटर  
(बिना कशीदाकारी का  
..... रु० प्रति वर्ग  
मीटर की दर से)
- (ii) ..... वर्ग मीटर  
(कशीदाकारी युक्त अथवा  
प्रक्रियागत कपड़ा .....  
रु० प्रति वर्ग मीटर की दर से)
- (ढ) कुल प्रतिअदायगी, जिसका बावा किया  
गया :—
- (i) पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के  
1.5 प्रतिशत की दर से  
  
तथा
- (ii) मूल कपड़े का 7 अथवा 12  
प्रतिशत (यथास्थिति), जैसा  
कि उक्त 'ड' में है  
  
तथा
- (iii) धागा अन्तर्वस्तु का .....  
रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से  
उप-क्रमांक  
2602 अथवा  
2603 अथवा  
2606 अथवा  
2620 अथवा  
2626 के अनुसार ।
- (iv) रंजित वस्त्रों के लिये .....  
रु० प्रति० कि० ग्रा० की दर से ।
- (उक्त फालम 'ट' के अनुसार)

जोड़ :

1. प्रमाणित किया जाता है कि हम नियम 191-क और 191-ख के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का लाभ नहीं उठा रहे हैं, और न ही हम किसी भी समय समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क से इन लाभों को प्राप्त करने का आवेदन करेंगे। इस्तेमाल किये गये वस्त्र पर पूर्णतः शुल्क अदा किया गया है।

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर)

(निर्माता के हस्ताक्षर)

### विवरण-पत्र 'क'

निर्यातकर्ता का नाम और पूरा पता :

निर्माता का नाम और पूरा पता :

I. विवरण-पत्र 'क' के अनुसार निर्यात की गई पोशाकों के निर्माण के लिए शुल्क अदा किये गए वस्त्रों की रसीद

क्र० स०	उल्लिखित वस्त्रों का विवरण किस्म स०	वस्त्र सप्लाई करने वाली मिल का नाम और पता	गेट पास सं० और तारीख	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई से० मी० में	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7

शुद्ध निर्धारित मूल्य (जब शुल्क मूल्या- नुसार है)	उत्पादनशुल्क की दर	अदा किए गये शुल्क की कुल रकम	वस्त्र की संरचना ताना-बाना और काउण्ट/डेनियर प्रति वर्ग मीटर वजन ग्रामों में
8	9	10	11

औसत शुल्क प्र० ५० मी०

II. उपर्युक्त कपड़े में से बाव में प्रक्रिया किये गये अथवा कशीदाकारी किये गये शुल्क प्रदत्त कपड़े की निर्यात की गयी पोशाकों के निर्माण के लिए रसीद

उल्लिखित वस्तु का विवरण	कारखाने का नाम, जिसने प्रक्रिया, कशीदाकारी का कार्य किया है	गेट पास सं० और तारीख	लम्बाई मीटरों में	चौड़ाई से० मी० में	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6

शुद्ध निर्धारित मूल्य (जब शुल्क मूल्या- नुसार है)	केन्द्रीय उत्पादन- शुल्क की दर	आगे प्रक्रिया करने अथवा कशीदा- कारी के लिए अदा किया गया कुल उत्पादन शुल्क	प्रक्रिया और कशीदाकारी से पूर्व मूल कपड़े में अन्तर्ग्रस्त उत्पादनशुल्क	कशीदाकारी अथवा प्रक्रिया गत कपड़े पर केन्द्रीय उत्पादन- शुल्क का कुल जोड़ अर्थात् 9+10
7	8	9	10	11

औसत शुल्क प्र० वर्ग मीटर

I और II के लिए स्थान		
क्या वस्त्र विरजित, रजित अथवा छपाई युक्त है	विवरण-वस्त्र 'क' की क्र० सं० में दिए गये वस्त्र से निर्मित पोशाकों का विवरण	निर्यात के व्योरे क्रम सं० तारीख निर्यात की गई मात्रा
12	13	14

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर)

(निर्माता के हस्ताक्षर)

## ERRATUM

*New Delhi, the 20th August 1975*

**DRAWBACK/PN-65/75.**—In Public Notice No. Drawback P.N. 53/75 published in part I Section 1 of the Gazette of India (Extra-ordinary) dated the 16th June, 1975, the Central Government hereby makes the following corrections:—

- (1) In the column 'rate of drawback' against Sub-Serial No. 1402 for "Rs. 2.84 (Rupees two and paise eighty four only) per litre" Read "Rs. 1.91 (Rupees One and paise ninety one only) per litre".
- (2) In the column 'rate of drawback' against Sub-Serial No. 1430 for "Rs. 0.89 (Eighty nine paise only) per litre" Read "Rs. 0.64 (Sixty four paise only) per litre".

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1975

प्रतिश्रदायगी सा० सं० 65/75.—भारत के राजपत्र (प्रसारधारण) दिनांक 16 जून, 1975 के भाग I खंड 1 में प्रकाशित सा० सू० सं० प्रतिश्रदायगी सा० सू० 53/75 में केन्द्राय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियां करती है :—

(1) उपक्रमांक 1402 के सामने 'प्रतिश्रदायगी की दर' स्तम्भ में "2.84 रु० (केवल दो रुपये चौरासी पैसे) प्रति लीटर" के स्थान पर "1.91 रु० (केवल एक रुपया इक्यानवे पैसे) प्रति लीटर" पढ़िये।

(2) उपक्रमांक 1403 के सामने 'प्रतिश्रदायगी की दर' स्तम्भ में "0.89 रु० (केवल नवासी पैसे) प्रति लीटर" के स्थान पर "0.64 रु० (केवल चौसठ पैसे) प्रति लीटर" पढ़िये।

सी० भुजंगस्वामी, उप सचिव।

